

(BANKING SERVICES CHRONICLE)

(Based on IBPS PO (PRE) latest pattern for COMMON WRITTEN (EXAM))

No. of Questions : 100

Time : 1 hr

Name of Student : _____

Father's Name: _____

Centre : _____

Batch No.: _____

Read the directions (given below) carefully.

1. इस पुस्तिका में निम्नलिखित पांच प्रश्नावलियां हैं :
प्रश्नावली I - अंग्रेजी भाषा प्र.क्र. 1-30
प्रश्नावली II - संख्यात्मक अभियोग्यता प्र.क्र. 31-65
प्रश्नावली III - तर्कशक्ति प्र.क्र. 66-100
 2. इन चार प्रश्नावलियों के उत्तर देने के लिए आपको कुल 1:00 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्नावलियों के लिए अलग-अलग समय नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार समय का संविभाजन कर सकते हैं, परंतु आपको स्मरण रखना चाहिए कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको तीनों प्रश्नावलियों में अलग-अलग सफल होना आवश्यक है।
 3. तर्कशक्ति और संख्यात्मक अभियोग्यता की प्रश्नावलियां हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपी हुई हैं। हिन्दी रूपान्तर बाएं तरफ के पन्ने पर और अंग्रेजी दाहिने तरफ के पन्ने पर छपे हुए हैं।
 4. अगर आप गलत उत्तर देंगे तो दंडस्वरूप आपके अंकों में कटौती की जाएगी। ऐसे किसी भी प्रश्न के निर्धारित अंकों में से, जिसका आपने गलत उत्तर दिया है, दंड के रूप में एक-चौथाई या 0.25 अंक काट लिए जाएंगे।
 5. रफ काम, यदि आप करना चाहें, तो इस पुस्तिका में ही करना चाहिए न कि उत्तरपत्र पर। इस हेतु हाशिए की अथवा अन्यत्र उपलब्ध खाली जगह का उपयोग कीजिए अन्य किसी कागज का उपयोग न कीजिए।
 6. अपने उत्तर अलग उत्तरपत्र पर एच.बी. पेन्सिल का प्रयोग कर दर्शाइए। उत्तर दर्शाने के लिए उत्तरपत्र में दिए गए अनुदेशों का पालन कीजिए।
 7. आपके उत्तरपत्र में उत्तर दर्शाने के लिए 100 उत्तरस्थान हैं। इस पुस्तिका में दिए हुए 100 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 100 उत्तरस्थानों का उपयोग कीजिए।
 8. जब तक निर्देश न मिले इस पुस्तिका को मत खोलिए। पुस्तिका खोलने का निर्देश मिलने पर पुस्तिका के बाएं किनारे पर लगे हुए मुड़े हुए तार निकालने का प्रयास न करें। पेन्सिल के पिछले भाग की मदद से दाहिनी तरफ लगे स्टीकर को फाड़कर पुस्तिका को खोलें।
 9. पुस्तिका खोलते ही जांच लीजिए कि सभी पष्ठ जिन पर प्रश्न 1 से 100 हैं, सही प्रकार से छपे हुए हैं और फिर प्रश्नावलियों के उत्तर देना प्रारंभ कीजिए। यदि पुस्तिका दोषपूर्ण हो तो इसे उसी प्रश्नावली प्रारूप क्रमांकवाली दूसरी प्रश्नपुस्तिका से बदलवा लीजिए।
1. This Booklet contains five tests as follows :
Test I - English Language Q.Nos. 1-30
Test II - Quantitative Aptitude Q.Nos. 31-65
Test III- Reasoning Q.Nos. 66-100
 2. You will be given an aggregate time of 1:00 hours to answer all the three tests. The tests are not separately timed. You may distribute the time as you please but remember that to qualify in the written test as a whole you have to qualify on each of the three tests separately.
 3. Tests of Reasoning and Quantitative Aptitude are printed in both Hindi and English. The Hindi version is printed on the left hand side page and the English version on the right hand side page.
 4. There will be penalty for wrong answers marked by you. For each question for which a wrong answer has been given by you, one-fourth or 0.25 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
 5. Rough work, if you want to do any, is to be done in this booklet itself and not on the answersheet. For this purpose use the empty space in the margin or anywhere else you find in this booklet. Do not use any other paper.
 6. Indicate your answers on the separate answersheet (given at the end of the booklet), using HB Pencil. Follow the instructions given on the answersheet for indicating your answers.
 7. Your answersheet contains answer-spaces for answering 100 questions. Use 100 answer spaces for answering the 100 questions given in this booklet.
 8. Do not open the booklet Until you are told to do so. When the instruction for opening the booklet is given, do not try to remove the wire staples at the left. Insert the blunt end of your pencil under the sticker and tear it to open the booklet.
 9. Immediately after opening the booklet, verify that all the pages containing questions from 1 to 100 are properly printed in your booklet and then begin answering the test. In case the booklet is defective get it replaced by another test booklet.

Test I

English Language

Directions (Q. 1-5) : Read each sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is “No error”, the answer is 5). (Ignore errors of punctuation, if any.)

1. 1) India took a big step forward on the road/ 2) to reform as a recently brokered political detente held and the Rajya Sabha/ 3) voted to approve the Constitutional amendment that will/ 4) help usher into the goods & sevice tax./ 5) No error.
2. 1) The regulator is of the view that bank guarantee provided/ 2) by Diageo to Mallya was a financial benefit/ 3) and by not factoring that into the acquisition price/ 4) it had acted against the interests of the minority shareholders./ 5) No error.
3. 1) Hiring engineering graduates from leading institutes is about to/ 2) turn tough for e-commerce companies, particularly startups/ 3) after some of them failed to make good on the offers they had/ 4) made in the previous rounds of recruitments../ 5) No error.
4. 1) Baring Asia, among the continent's biggest buyout funds, has reversed it stance/ 2) on ICICI Home Finance and launch a dramatic, last-minute counter-bid/ 3) to wrest control of the firm, throwing a spanner/ 4) in the plans of American private equity giant TPG./ 5) No error.
5. 1) This is expected to reduce logistics costs by removing barriers to trade, laying the stage for/ 2) more competitive manufacturing, it will also provide a smooth input tax/ 3) credit mechanism, ensuring each entity pays tax only on the / 4) value added or quantum of consumption, resulting in lower prices. 5) No error.

Directions (Q. 6-10) : Rearrange the following five sentences (A), (B), (C), (D) and (E) in the proper sequence to form a meaningful paragraph and then answer the questions given below.

- (A) Opposition parties have opposed the EPFO's move to raise exposure to equities to ostensibly protect workers' interest.
- (B) Further, the National pension System (NPS), which invests in equity, generates superior returns for its subscribers.
- (C) They must see the reason that, equities tend to fetch better returns than government bonds in which the EPF mostly invests, and will help workers grow their retirement nest.
- (D) Its corpus of about ₹ 10 lakh crore is large enough to be invested across risk classes to minimise risk and maximise returns.
- (E) Now, the EPFO invests only 5% of its incremental deposits every month in exchange-traded funds tracking benchmark indices Sensex and Nifty, though rules allow a maximum 15% of exposure to stock markets, a higher exposure makes sense.
6. Which of the following would be the **FIRST** sentence after rearrangement ?
1)A 2)B 3)C 4)D 5)E
 7. Which of the following would be the **SECOND** sentence after rearrangement ?
1)A 2)B 3)C 4)D 5)E
 8. Which of the following would be the **THIRD** sentence after rearrangement ?
1)A 2)B 3)C 4)D 5)E
 9. Which of the following would be the **FOURTH** sentence after rearrangement ?
1)A 2)B 3)C 4)D 5)E
 10. Which of the following would be the **FIFTH (LAST)** sentence after rearrangement ?
1)A 2)B 3)C 4)D 5)E

Directions (Q. 11-15) : Each questions below has two blanks, each blank indicating that something has been omitted. Choose the set of words for each blank that best fits the meaning of the sentence as whole.

The question of bioavailability is even more **vexed**. The body does not necessarily absorb beta-carotene because one eats Golden Rice. The Golden Rice Humanitarian Board's website quotes a study published in 2012 in The American Journal of Clinical Nutrition for establishing the effectiveness of Golden Rice. On July 29, 2015, the journal retracted this paper citing ethical concerns.

Even assuming that ethical concerns do not detract from the paper's findings, the study design merits attention. The study saw middle-income, healthy Chinese children consuming a total of 210 grams of pork and other foods over breakfast and lunch daily, with 40 per cent of their total calorie **intake** coming from fat. Fats help the body absorb beta-carotene, since the latter dissolves easily in fats. Unlike customary practice, the Golden Rice fed to the children had been stored at minus 70°C after drying for three days, to avoid any decline in beta-carotene levels with time. Thus, the study design favoured Golden Rice, rather than reflecting the actual lives and habits of poor Asians and Africans, who generally cannot afford fat-rich meals every day.

The Nobel Laureates accuse Greenpeace's campaign of raising the regulatory bar for GM crops. The facts above suggest that neither Greenpeace nor regulatory hurdles have delayed Golden Rice's release. In fact, in 2009, the **distinguished** biotechnologist, former Deputy Director-General (Crop Science) of the Indian Council of Agricultural Research, who had worked on Golden Rice at IRRI, categorically stated, "The regulatory system is not the barrier to releasing Golden Rice in India." IRRI itself, in its last update released in 2014, said: "Golden Rice will only be made available broadly to farmers and consumers if it is successfully developed into rice varieties suitable for Asia, approved by national regulators, and shown to improve Vitamin A status in community conditions."

Let us, for the moment, ignore the political aspects of Golden Rice and GM crops. Let us overlook the fact that many sciences (other than physics, chemistry, and medicine represented in the letter) have something to contribute to the debate over GM crops — in India, agricultural scientists, ecologists, nutritionists, and sociologists, among others, have insightfully contributed to the debate

16. According to the passage, which of the following is the cause of Vitamin A deficiency?
 - 1) Childhood stone-blindness and death.
 - 2) Childhood blindness.
 - 3) Childhood blindness and malnutrition.
 - 4) Childhood blindness, and infections.
 - 5) Measles, diarrhoea, long sightedness and death.

17. Which of the following can be said about the international Rice Research Institute (IRRI)?
 - (A) IRRI's international prestige lends secondary to the country as the center for collaboration in rice reasearch.
 - (B) IRRI changes the lives of people providing beta-carotene.
 - (C) IRRI develops new rice varieties and rice crop management techniques that help rice farmers improve the yield and the quality of rice.
 - 1) Only A
 - 2) Only B
 - 3) Only C
 - 4) Only A and B
 - 5) Only B and C

18. Why is the Golden Rice being developed?
 - A) The Golden Rice is being developed to produce beta-carotene, the precursor of Vitamin A.
 - B) The Golden Rice is being developed to save lives.
 - C) The Golden Rice is being developed to save the life of children.
 - 1) Only A
 - 2) Only B
 - 3) Only C
 - 4) Only B and C
 - 5) Only A and C

19. Which of the following is/are **NOT TRUE** in the context of the passage?
 - A) The Golden Rice will only be made, if it is successfully advanced into rice varieties suitable for Asia and approved by national regulators and shown to improve Vitamin A.
 - B) The Golden Rice is bio-available and the digestive system is able to lay away the beta-carotene.
 - C) The Golden Rice has not entered the stage of biosafety evaluation by government regulatory institutions.
 - 1) Only A
 - 2) Only B
 - 3) Only C
 - 4) Only A and C
 - 5) Only A and B

20. What sufficiency does the Golden Rice has?

- 1) It has sufficiency to attenuate much of the death and disease caused by Vitamin A deficiency.
- 2) It has sufficiency to reflect the assessment of the varieties selected for introgression as well as 'golden' trait itself.
- 3) It is implicitly linked to a perceived reduction in public concern and the commercialisation of Bt corn.
- 4) It has sufficiency to change with the introduction of the golden trait since it is a direct response to beta-carotene.
- 5) It has sufficiency to deteriorate vitamin A levels among people.

Directions (Q. 21-23) : Choose the word which is MOST SIMILAR in meaning to the word/group of words printed in bold as used in the passage.

21. **DISTINGUISHED**

- | | | | | |
|------------|--------------|----------|---------------|-----------|
| 1) Flighty | 2) Frivolous | 3) Goofy | 4) Celebrated | 5) Common |
|------------|--------------|----------|---------------|-----------|

22. **INTAKE**

- | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 1) Absorption | 2) Output | 3) Outturn | 4) Throughput | 5) Production |
|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|

23. **CONSISTENT**

- | | | | | |
|----------------|----------------|---------|-----------------|-------------|
| 1) Conflictive | 2) Conflicting | 3) Even | 4) inharmonious | 5) distinct |
|----------------|----------------|---------|-----------------|-------------|

Directions (Q. 24-25) : Choose the word which is MOST OPPOSITE in meaning of the word printed in bold as used in the passage.

24. **VEXED**

- | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------|
| 1) Soothing | 2) Exasperated | 3) Annoying | 4) Aggravated | 5) Placid |
|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------|

25. **Glosses**

- | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| 1) Sleekness | 2) Hides | 3) Shimmers | 4) Silkiness | 5) burnishes |
|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|

Directions (Q. 26-30) : In the following passage, some of the words have been left out, each of which is indicated by a number. Find the suitable word from the options given against each number and fill up the blanks with appropriate words to make the paragraph meaningful.

The GST is now the compulsory levy, since income tax is on disclosure. No wonder IT revenue has long been **(26)** behind indirect taxes that are far easier to **(27)**. The government may well be **(28)** to touch the 18-20% tax band than the 14-18%. With the government's proven **(29)** on healthcare and welfare schemes, savings remains the nest egg for all but the affluent. The GST load would largely be borne by the lower and middle income groups, significantly **(30)** their savings.

- | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 26. 1) opening | 2) running | 3) lagging | 4) leaving | 5) rushing |
| 27. 1) recover | 2) tinker | 3) revamp | 4) maintain | 5) restore |
| 28. 1) tempted | 2) excited | 3) offended | 4) gladden | 5) indulged |
| 29. 1) volition | 2) reluctance | 3) readiness | 4) inclination | 5) willingness |
| 30. 1) breaking | 2) elevating | 3) pausing | 4) reducing | 5) fragmenting |

Test II
Quantitative Aptitude

निर्देश (प्र. 31-35) : निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर क्या मान आना चाहिए?

31. $\sqrt{53.29} \div (30)^{-2} = ?$
 1) 7240 2) 6570 3) 5670 4) 4540 5) इनमें से कोई नहीं
32. 1335 का 13% + 1135 का ?% = 366.5
 1) 11 2) 13 3) 15 4) 17 5) 19
33. $\frac{11}{113}$ of $\frac{7}{85}$ of 115260 = ?
 1) 832 2) 848 3) 886 4) 904 5) इनमें से कोई नहीं
34. $2786 + 105 \times ? = 304 \times 14$
 1) 12 2) 14 3) 16 4) 18 5) 22
35. $\sqrt[3]{1061208} = ?$
 1) 108 2) 106 3) 102 4) 92 5) 104

निर्देश (प्र. 36-40) : निम्नलिखित संख्या श्रंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर क्या मान आना चाहिए?

36. 5 21 57 121 221 365 ?
 1) 536 2) 561 3) 584 4) 604 5) 628
37. 5 49 481 3841 ?
 1) 23041 2) 22031 3) 21021 4) 20011 5) 19001
38. 8 19 52 151 448 ?
 1) 1120 2) 1148 3) 1236 4) 1284 5) 1339
39. 9801 9604 9409 9216 9025 ?
 1) 8836 2) 8792 3) 8688 4) 8542 5) 8466
40. 339 733 1327 2201 3371 ?
 1) 4677 2) 4757 3) 4837 4) 4917 5) 5007
41. एक दुकानदार एक टीवी 35% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे ₹528 कम में बेचता तो उसे 24% लाभ प्राप्त होगा। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु कितने में बेचनी चाहिए?
 1) ₹6040 2) ₹6480 3) ₹6720 4) ₹7210 5) इनमें से कोई नहीं
42. राहुल तथा अजय की औसत आयु 51 वर्ष है। अजय तथा विजय की औसत आयु 36 वर्ष है तथा राहुल तथा विजय की औसत आयु 43 वर्ष है तो 12 वर्ष बाद अजय की आयु का विजय की आयु के साथ अनुपात में होगा?
 1) 4 : 5 2) 7 : 5 3) 11 : 7 4) 9 : 8 5) 10 : 7
43. ₹7 लाख की राशि पर पहले वर्ष 5% की दूसरे वर्ष 8% की तथा तीसरे वर्ष 12% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है?
 1) ₹163600 2) ₹189056 3) ₹194064 4) ₹201040 5) इनमें से कोई नहीं
44. 'WEDNESDAY' शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आये?
 1) 7560 2) 15120 3) 2520 4) 5040 5) इनमें से कोई नहीं
45. सात व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। तीन निश्चित व्यक्तियों की एक साथ बैठने की प्रायिकता क्या है?
 1) $\frac{1}{7}$ 2) $\frac{2}{7}$ 3) $\frac{1}{5}$ 4) $\frac{2}{5}$ 5) $\frac{1}{6}$
46. यदि आयत की लम्बाई में 130% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में 828 वर्ग सेमी तथा परिमाप 162 सेमी हो जाता है तो वास्तविक आयत का परिमाप क्या है?
 1) 76 सेमी 2) 84 सेमी 3) 114 सेमी 4) 120 सेमी 5) इनमें से कोई नहीं

Test II
Quantitative Aptitude

Directions (Q. 31-35) : What should come in place of questions mark (?) in the following equations ?


31. $\sqrt{53.29} \div (30)^{-2} = ?$
 1) 7240 2) 6570 3) 5670 4) 4540 5) None of these
32. $13\% \text{ of } 1335 + ?\% \text{ of } 1135 = 366.5$
 1) 11 2) 13 3) 15 4) 17 5) 19
33. $\frac{11}{113} \text{ of } \frac{7}{85} \text{ of } 115260 = ?$
 1) 832 2) 848 3) 886 4) 904 5) None of these
34. $2786 + 105 \times ? = 304 \times 14$
 1) 12 2) 14 3) 16 4) 18 5) 22
35. $\sqrt[3]{1061208} = ?$
 1) 108 2) 106 3) 102 4) 92 5) 104

Directions (36-40) : What number should come in place of questions mark (?) in the following number series ?

36. 5 21 57 121 221 365 ?
 1) 536 2) 561 3) 584 4) 604 5) 628
37. 5 49 481 3841 ?
 1) 23041 2) 22031 3) 21021 4) 20011 5) 19001
38. 8 19 52 151 448 ?
 1) 1120 2) 1148 3) 1236 4) 1284 5) 1339
39. 9801 9604 9409 9216 9025 ?
 1) 8836 2) 8792 3) 8688 4) 8542 5) 8466
40. 339 733 1327 2201 3371 ?
 1) 4677 2) 4757 3) 4837 4) 4917 5) 5007
41. A shopkeeper sold a TV at a profit of 35%. Had he sold it for ₹ 528 less, he would have gained 24%. For what price should he sell it in order to gain 40%?
 1) ₹ 6040 2) ₹ 6480 3) ₹ 6720 4) ₹ 7210 5) None of these
42. The average age of Rahul and Ajay is 51 years. The average age of Ajay and Vijay is 36 years and the average age of Rahul and Vijay is 43 years. What will be the ratio of the age of Ajay to the age of Vijay after 12 years?
 1) 4 : 5 2) 7 : 5 3) 11 : 7 4) 9 : 8 5) 10 : 7
43. What is the compound interest on ₹ 7 lakh for three years if the rate of interest is 5% for the first year, 8% for the second year and 12% for the third year?
 1) ₹ 163600 2) ₹ 189056 3) ₹ 194064 4) ₹ 201040 5) None of these
44. How many difference arrangements can be made from the letters of the word 'WEDNESDAY' such that all vowels come together?
 1) 7560 2) 15120 3) 2520 4) 5040 5) None of these
45. Seven persons are sitting around table. What is the probability that three particular persons are sitting together?
 1) $\frac{1}{7}$ 2) $\frac{2}{7}$ 3) $\frac{1}{5}$ 4) $\frac{2}{5}$ 5) $\frac{1}{6}$
46. If the length of a rectangle is increased by 130%, its area becomes 828 sq cm and perimeter 162 cm. What is the perimeter of the original rectangle?
 1) 76 cm 2) 84 cm 3) 114 cm 4) 120 cm 5) None of these

47. दो स्थान A तथा B के बीच की दूरी 600 किमी है। एक रेलगाड़ी A से B के लिए तथा उसी समय अन्य रेलगाड़ी B से A के लिए रवाना होती है। दोनों रेलगाड़ी अपनी यात्रा की शुरुआत के आठ घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। A से B की तरफ जा रही रेलगाड़ी, अन्य रेलगाड़ी से 15 किमी/घंटा की चाल से अधिक तेजी से जाती है तो धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की चाल तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल से अनुपात क्या है?
 1) 2:5 2) 2:3 3) 3:5 4) 7:8 5) इनमें से कोई नहीं
48. A, B तथा C किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन तथा 60 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं परन्तु A 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। B, कार्य पूरा होने से पाँच दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है तो कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा?
 1) 30 दिन 2) 28 दिन 3) 25 दिन 4) 24 दिन 5) 20 दिन
49. तीन व्यक्ति A, B तथा C 11 दिन में एक साथ मिलकर ₹ 3905 कमाते हैं। A तथा C 13 दिन में एक साथ मिलकर ₹ 3055 कमाते हैं। B तथा C 17 दिन में एक साथ मिलकर ₹ 4760 कमाते हैं तो A द्वारा 15 दिन में कमाई गई राशि का 60% क्या है?
 1) ₹ 960 2) ₹ 840 3) ₹ 720 4) ₹ 675 5) इनमें से कोई नहीं
50. एक कार P से Q तक पहुँचने में 33 घंटे लेती है। यदि चाल को 10 किमी/घंटा कम कर दिया जाए तो वह समान दूरी तय करने में 55 घंटे का समय लेगी। P तथा Q के बीच की दूरी क्या है?
 1) 775 किमी 2) 800 किमी 3) 825 किमी 4) 850 किमी 5) 875 किमी


निर्देश (प्र. 51-55) : निम्नलिखित लाइन ग्राफ में विभिन्न विद्यालयों से प्रथम श्रेणी दूसरी श्रेणी तथा तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। तालिका में विभिन्न विद्यालयों में तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या को दर्शाया गया है।



School	Number of Students passing in 3rd class
A	35
B	36
C	100
D	80
E	78
F	130

47. Two places A and B are 600 km apart. A train leaves A for B and at the same time another train leaves B for A. Both the trains meet after eight hours of starting their journey. If the train travelling from A to B travels 15 kmh^{-1} faster than the other train, what is the ratio of the speed of the slower train to the speed of the faster train ?
 1) 2 : 5 2) 2 : 3 3) 3 : 5 4) 7 : 8 5) None of these
48. A, B and C can do a work in 30 days, 45 days and 60 days respectively. They started the work together but A left after 10 days. B left the work five days before the completion of the work. In how many days was the work completed ?
 1) 30 days 2) 28 days 3) 25 days 4) 24 days 5) 20 days
49. Three persons A, B and C together earn ₹ 3905 in 11 days. A and C together earn ₹ 3055 in 13 days. B and C together earn ₹ 4760 in 17 days. What is 60% of the earning of A in 15 days ?
 1) ₹ 960 2) ₹ 840 3) ₹ 720 4) ₹ 675 5) None of these
50. A car travels from P to Q in 33 hours. If the speed is reduced by 10 kmh^{-1} it will cover the same distance in 55 hours. What is the distance between P and Q ?
 1) 775 km 2) 800 km 3) 825 km 4) 850 km 5) 875 km

Directions (Q. 51-55) : Following line graph shows the percentage of students who passed in 1st class, 2nd class and 3rd class in an exam. The table shows the number of students who got 3rd class in the exam from different schools.




School	Number of Students passing in 3rd class
A	35
B	36
C	100
D	80
E	78
F	130

51. परीक्षा में कुल उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या तथा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है?
1)1043 2)1045 3)1047 4)1049 5)1051
52. तीसरी श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है?
1)26.5% 2)27.5% 3)28.5% 4)29.5% 5)30.5%
53. प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या किस विद्यालय में अधिकतम है?
1)A 2)B 3)C 4)E 5)F
54. सभी छः विद्यालयों में एकसाथ मिलाकर या तो प्रथम या तीसरी श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का औसत क्या है?
1)170 2)172 3)174 4)176 5)178
55. विद्यालय E के कुल विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने तीसरे श्रेणी प्राप्त की है, विद्यालय B के कुल विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है का कितने प्रतिशत है?
1)45% 2)50% 3)55% 4)60% 5)65%

निर्देश (प्र. 56-60) : प्रत्येक प्रश्न में दो समीकरण (I) तथा (II) दिये गये हैं। दोनों समीकरण को हल करके उत्तर दें।

- 1) यदि $p > q$ 2) यदि $p \geq q$ 3) यदि $p < q$
4) यदि $p \leq q$ 5) यदि $p = q$ या p तथा q के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता
56. I. $2.3p - 20.01 = 0$ II. $2.9q - p = 0$
57. I. $p = \sqrt{1764}$ II. $q^2 = 1764$
58. I. $p^2 - 26p + 168 = 0$ II. $q^2 - 25q + 156 = 0$
59. I. $p^2 - 13p + 42 = 0$ II. $q^2 + q - 42 = 0$
60. I. $6p - 5q = -47$ II. $5p + 3q = 11$

निर्देश (प्र. 61-65) : निम्नलिखित लाइन ग्राफ में वर्ष 2010 से 2015 के दौरान कम्पनी A के लाभ प्रतिशत, कम्पनी B की आय तथा कम्पनी B के खर्च को दर्शाया गया है।




61. वर्ष 2010 में कम्पनी A तथा कम्पनी B के लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर क्या है?
1)5% 2)7% 3)11% 4)12% 5)15%
62. यदि वर्ष 2011 में कम्पनी A की आय ₹ 32.5 लाख थी तो वर्ष 2011 में कम्पनी A तथा B के शुद्ध लाभ का योगफल क्या था?
1) ₹ 12.8 लाख 2) ₹ 13.2 लाख 3) ₹ 15 लाख 4) 16.5 लाख 5) इनमें से कोई नहीं

51. What is difference between the total number of students passed and the total number of students getting 1st class in the exam ?
1) 1043 2) 1045 3) 1047 4) 1049 5) 1051
52. Total number of students who got 3rd class is what per cent of the total number of students passed ?
1) 26.5% 2) 27.5% 3) 28.5% 4) 29.5% 5) 30.5%
53. From which school is the number of students who got 1st class the maximum ?
1) A 2) B 3) C 4) E 5) F
54. What is the average number of students from and the six schools together who got either first class or third class ?
1) 170 2) 172 3) 174 4) 176 5) 178
55. Total number of students from school E who got third class is what per cent of the total number of students from school B who got first class ?
1) 45% 2) 50% 3) 55% 4) 60% 5) 65%

Directions (Q. 56-60) : In each of these questions two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1) if $p > q$ | 2) if $p \geq q$ | 3) if $p < q$ |
| 4) if $p \leq q$ | 5) if $p = q$ or no relation can be established between p and q . | |
56. I. $2.3p - 20.01 = 0$ II. $2.9q - p = 0$
 57. I. $p = \sqrt{1764}$ II. $q^2 = 1764$
 58. I. $p^2 - 26p + 168 = 0$ II. $q^2 - 25q + 156 = 0$
 59. I. $p^2 - 13p + 42 = 0$ II. $q^2 + q - 42 = 0$
 60. I. $6p - 5q = -47$ II. $5p + 3q = 11$

Directions (Q. 61-65) : Following line graph shows the percent profit of company A, income of company B and expenditure of company B from 2010 to 2015.



61. What is the difference between per cent profit of company A and company B in the year 2010 ?
1) 5% 2) 7% 3) 11% 4) 12% 5) 15%
62. If the income of company A in year 2011 was ₹ 32.5 lakh, what was the sum of the net profit of company A and company B in 2011 ?
1) ₹ 12.8 lakh 2) ₹ 13.2 lakh 3) ₹ 15 lakh 4) 16.5 lakh 5) None of these

63. निम्नलिखित में से किस वर्ष में कम्पनी B का लाभ प्रतिशत अधिकतम था?
1)2011 2)2012 3)2013 4)2014 5)2015
64. यदि वर्ष 2014 में कम्पनी A का खर्च ₹ 45 लाख था तो वर्ष 2014 में कम्पनी A का शुद्ध लाभ कम्पनी B के शुद्ध लाभ का कितने प्रतिशत है?
1)15% 2)25% 3)40% 4)75% 5)80%
65. यदि वर्ष 2015 में कम्पनी A की आय ₹ 90 लाख थी तो कम्पनी B का शुद्ध लाभ कम्पनी A के शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है?
1)30% 2)60% 3)75% 4)80% 5)90%

63. In which of the following years was the per cent profit of company B maximum ?
1)2011 2)2012 3)2013 4)2014 5)2015
64. If the expenditure of company A in year 2014 was ₹ 45 lakh the net profit of company A is what per cent of net profit of company B in 2014 ?
1)15% 2)25% 3)40% 4)75% 5)80%
65. If the income of company A in year 2015 was ₹ 90 lakh the net profit of company B is what per cent more than the net profit of company A ?
1)30% 2)60% 3)75% 4)80% 5)90%

प्रश्नावली III
तार्किक क्षमता

निर्देश (प्र. 66-70) : निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे दिये गए प्रश्नों का उत्तर दें।

एक संगठन में आठ कर्मचारी सपना, उजीत, वसीम, यूनिस, जहीर, तन्मय, वंश तथा जेवियर तीन अलग-अलग विभाग जैसे प्रोडक्शन, R & D तथा डिजाइन में कार्य करते हैं। उनमें से प्रत्येक विभिन्न रंग नीला, पीला, संतरी, सफेद, हरा, बैंगनी, काला तथा भूरा रंग पसंद करते हैं, परन्तु जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हों। तीन से अधिक कर्मचारी एक ही विभाग में कार्य नहीं करते हैं।

वंश को भूरा रंग पसंद है तथा वह R & D विभाग में कार्य नहीं करता है। जहीर डिजाइनिंग विभाग में कार्य नहीं करता है तथा उसे पीला या सफेद रंग पसंद नहीं है। वसीम, डिजाइनिंग विभाग में कार्य करता है तथा उसे न तो नीला और न ही पीला रंग पसंद है। यूनिस, प्रोडक्शन विभाग में केवल उजीत के साथ कार्य करता है जो कि काला रंग पसंद करता है। सपना तथा जेवियर, वसीम के साथ कार्य नहीं करते हैं। वह जिसे नीला रंग पसंद है, डिजाइनिंग विभाग में कार्य करता है। वह जिसे संतरी रंग पसंद है, प्रोडक्शन विभाग में कार्य करता है। वह जो डिजाइनिंग विभाग में कार्य करता है, उसे न तो सफेद और न ही हरा पसंद है। जेवियर पीला रंग पसंद नहीं करता है।

66. जहीर को निम्नलिखित में से कौन सा रंग पसंद है?
1) संतरी 2) हरा 3) भूरा 4) नीला 5) इनमें से कोई नहीं
67. निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों का समूह डिजाइनिंग विभाग में कार्य करता है?
1) तन्मय- वंश- वसीम 2) उजीत- वंश - वसीम 3) वंश- वसीम- जहीर
4) तन्मय- वंश- सपना 5) इनमें से कोई नहीं
68. निम्नलिखित में से कौन बैंगनी रंग पसंद करता है?
1) तन्मय 2) सपना 3) वसीम 4) ज्ञात नहीं किया जा सकता 5) वंश
69. निम्नलिखित में से किस विभाग में सपना कार्य करती है?
1) प्रोडक्शन 2) डिजाइनिंग 3) R & D 4) 1 या 2 5) इनमें से कोई नहीं
70. निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सत्य है?
1) वंश- प्रोडक्शन- काला 2) वंश- डिजाइनिंग- भूरा 3) तन्मय- R & D - हरा
4) सभी सत्य हैं। 5) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (प्र. 71-75) : नीचे दिये गये प्रत्येक प्रश्न में, चार कथन और उसके बाद तीन निष्कर्ष I, II और III दिये गये हैं। आपको सभी कथनों को सही मानना है चाहे वे ज्ञात तत्वों से भिन्न ही क्यों न हो और तब निर्णय लीजिये कि कथनों में दी गयी सूचना के अनुसार कौन से/सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है तथा उत्तर दीजिए।

71. **कथन :** सभी पालतू कुत्ते हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं।
कुछ बिल्ली चूहे हैं। कुछ चूहे बकरी हैं।
निष्कर्ष : I. कुछ बिल्ली पालतू हैं। II. कुछ बकरी बिल्ली हैं। III. कुछ चूहे कुत्ते हैं।
1) केवल I अनुसरण करता है। 2) केवल I तथा II अनुसरण करता है।
3) केवल I तथा III अनुसरण करता है। 4) सभी अनुसरण करते हैं 5) इनमें से कोई नहीं
72. **कथन :** कुछ गुलाब जैसमिन हैं। कुछ जैसमिन लिली हैं।
कुछ जैसमिन मैरीगोल्ड हैं। कोई मैरीगोल्ड सनफलावर नहीं है।
निष्कर्ष : I. कुछ लिली मैरीगोल्ड हैं। II. कोई लिली मैरीगोल्ड नहीं है। III. कोई सनफलावर जैसमिन नहीं है।
1) कोई अनुसरण नहीं करता है। 2) केवल I अनुसरण करता है। 3) केवल II अनुसरण करता है।
4) केवल III अनुसरण करता है। 5) केवल I या II अनुसरण करता है।
73. **कथन :** कुछ फ्लैट घर हैं। कुछ घर बंगले हैं।
सभी बंगले होटल हैं। सभी होटल रेस्टोरेंट हैं।
निष्कर्ष : I. सभी बंगले रेस्टोरेंट हैं। II. कुछ घर होटल हैं।
III. कुछ घर रेस्टोरेंट हैं।
1) सभी अनुसरण करता है। 2) केवल I अनुसरण करता है।
3) केवल II तथा III अनुसरण करते हैं। 4) केवल I तथा II अनुसरण करते हैं। 5) इनमें से कोई नहीं

74. कथन : कुछ नींबू मिर्च हैं।
कोई बैंगन मिठाई नहीं है।
निष्कर्ष : I. कोई बैंगन डेजर्ट नहीं है। II. कुछ मिर्च मिठाई हैं। III. कुछ डेजर्ट मिठाई हैं।
1) केवल I अनुसरण करता है। 2) केवल III अनुसरण करता है।
3) केवल II तथा III अनुसरण करते हैं। 4) कोई अनुसरण नहीं करता है। 5) इनमें से कोई नहीं

75. कथन : कुछ अंगूर प्लम हैं।
सभी संतरे सेब हैं।
निष्कर्ष : I. कोई प्लम सेब नहीं है। II. कुछ अंगूर अमरूद हैं। III. कुछ संतरे अमरूद हैं।
1) केवल I अनुसरण करता है। 2) केवल II अनुसरण करता है। 3) केवल III अनुसरण करता है।
4) कोई अनुसरण नहीं करता है। 5) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (प्र. 76-80) : इन प्रश्नों में, कथन में अलग-अलग तत्वों के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। कथनों के दो निष्कर्ष दिये गये हैं। उत्तर दीजिए:-

- 1) यदि केवल निष्कर्ष I सत्य है। 2) यदि केवल निष्कर्ष II सत्य है।
3) यदि या तो निष्कर्ष I या II सत्य है। 4) यदि न तो निष्कर्ष I न ही II सत्य है।
5) यदि दोनों निष्कर्ष I और II सत्य हैं।
76. कथन : $Y > Q > R \geq S, Y = Z, Y \leq A$
निष्कर्ष : I. $Z > S$ II. $S > A$
77. कथन : $Q \geq T, T \leq Z, Y = Z, Y > A$
निष्कर्ष : I. $T = Y$ II. $Y > Q$
78. कथन : $T \leq U, U > S, U = X$
निष्कर्ष : I. $S < T$ II. $T < X$
79. कथन : $N \leq A = T, B < H \geq M > T$
निष्कर्ष : I. $A < H$ II. $N \geq M$
80. कथन : $K \leq L, L > M, M \leq O < P, Q = K$
निष्कर्ष : I. $Q = M$ II. $P > L$

निर्देश (प्र. 81-84) : निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे दिये गए प्रश्नों का उत्तर दें।

राहुल जो कि एक विद्यार्थी है प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सबसे पहले वह अपने घर से 80 मीटर पूर्व की तरफ चलता है तथा फिर दाईं तरफ मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह दोबारा दाईं तरफ मुड़ता है तथा 60 मीटर चलता है। अन्ततः वह दाईं तरफ मुड़ता है और विद्यालय पहुँचता है जो कि उससे 20 मीटर की दूरी पर है।

एक दिन विद्यालय में लम्बी कतार लगी हुई थी तथा जब राहुल पहुँचा घड़ी में 9 : 45 बजे हुए थे। उसे थोड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं उसे विद्यालय में पहुँचने में देर न हो जाए। प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय के अंदर पहुँचने में डेढ़ मिनट का समय ले रहा था।

81. विद्यालय राहुल के घर से किस दिशा में स्थित है?
1) दक्षिण 2) दक्षिण-पूर्व 3) उत्तर-पूर्व 4) उत्तर-पश्चिम 5) पूर्व
82. राहुल द्वारा विद्यालय पहुँचने में कुल तय की गई दूरी क्या है?
1) 200 मी 2) 80 मी 3) 160 मी 4) 120 मी 5) 100 मी
83. यदि राहुल के आगे 30 विद्यार्थी है तो वह किस समय विद्यालय में दाखिल हुआ?
1) 10 : 15 बजे 2) 10 : 30 बजे 3) 10 : 05 बजे 4) ज्ञात नहीं किया जा सकता 5) इनमें से कोई नहीं
84. विद्यालय तथा राहुल के घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है?
1) $20\sqrt{3}$ मी 2) $25\sqrt{3}$ मी 3) $20\sqrt{5}$ मी 4) $20\sqrt{2}$ मी 5) ज्ञात नहीं किया जा सकता

85. एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए रागिनी कहती है “वह मेरी दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र है।” तो लड़के की माँ रागिनी से किस प्रकार संबंधित है?

- 1) माता 2) चाची 3) बहन 4) कजिन 5) इनमें से कोई नहीं

86. N, U की बहन है तथा V, U का भाई है। Z, U का पिता है तथा X, Y की पुत्री है जो कि N की माँ है तो Y की कितनी पुत्रियां हैं?

- 1) एक 2) दो 3) तीन 4) ज्ञात नहीं किया जा सकता 5) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (प्र. 87-91) : निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे दिये गए प्रश्नों का उत्तर दें।

एक प्ले स्कूल में 8 बच्चे A, B, C, D, E, F, G तथा H एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केन्द्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं उनमें से प्रत्येक विभिन्न माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तथा अगस्त में पैदा हुए हैं, परन्तु जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हों।

D, B के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। C, A के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। C तथा A अप्रैल से पहले पैदा हुए हैं। वह जो जून में पैदा हुआ है, A तथा B के ठीक बीच बैठा हुआ है। E, जो सबसे बड़ा है, A या D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। H, केवल D से बड़ा है। H, G के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। G, E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। A, C से छोटा है। B, F से पहले पैदा हुआ है।

87. कौन समूह में दूसरा सबसे बड़ा है?

- 1) A 2) C 3) B 4) G 5) इनमें से कोई नहीं

88. कौन F के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है?

- 1) वह जो मार्च में पैदा हुआ है। 2) वह जो अप्रैल में पैदा हुआ है।
3) वह जो जुलाई में पैदा हुआ है। 4) वह जो जून में पैदा हुआ है।
5) इनमें से कोई नहीं

89. H किस माह में पैदा हुआ था?

- 1) मार्च 2) फरवरी 3) अप्रैल 4) जुलाई 5) इनमें से कोई नहीं

90. B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- 1) B, H के दाएं से चौथे स्थान पर है। 2) वह जो फरवरी माह में पैदा हुआ है B के ठीक बाईं तरफ है।
3) B, H से छोटा है। 4) E तथा D के बीच चार व्यक्ति बैठे हैं
5) इनमें से कोई नहीं

91. अप्रैल माह में पैदा होने वाले के ठीक विपरीत कौन बैठा है?

- 1) A 2) H 3) F 4) D 5) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (प्र. 92-96) : निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे दिये गए प्रश्नों का उत्तर दें।

बारह व्यक्ति A, B, C, D, E, F, T, U, V, W, X, तथा Y दो समान्तर कतारों में बैठे हैं। कतार 1 में A, B, C, D, E तथा F बैठे हैं तथा उन सभी का मुख दक्षिण की तरफ है जबकि कतार 2 में T, U, V, W, X तथा Y बैठे हैं तथा उन सभी का मुख उत्तर की तरफ है परन्तु जरूरी नहीं कि ये इसी में हों।

V, जो कि कतार में अंतिम छोर पर है, Y के बाएं से दूसरे स्थान पर है। U तथा T के बीच दो व्यक्ति हैं। F तथा A के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। B, D के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। B, V या Y के विपरीत नहीं बैठा है। F तथा A, V के विपरीत नहीं बैठे हैं। C, F के बगल में बैठा है। W, जो A के विपरीत में नहीं बैठा है वह U के बगल में भी नहीं बैठा है।

92. कौन D के विपरीत बैठा है?

- 1) U 2) Y 3) W 4) X 5) T

93. E तथा F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

- 1) चार 2) तीन 3) दो 4) एक 5) इनमें से कोई नहीं

85. Pointing to a child, Ragini says, "He is the son of my grandmother's only son." How is the boy's mother related to Ragini?
1) Mother 2) Aunt 3) Sister 4) Cousin 5) None of these
86. N is sister of U and V is brother of U. Z is father of U and X is daughter of Y, who is mother of N. How many daughter's does Y have ?
1) One 2) Two 3) Three 4) Can't be determined 5) None of these

Directions (Q. 87-91) : Study the following information carefully and answer the questions given below:

In a play school eight baby A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table, facing outside from the centre. Each of them was born in a different months of a year—January, February, March, April, May, June, July and August but not necessarily in the same order.

D is sitting second to the left of B. C is sitting third to the left of A. C and A were born before April. Only the one who born in June is sitting exactly between A and B. E, who is the eldest, is not an immediate neighbour of A or D. H is older than only D. H is sitting second to the right of G. G is not an immediate neighbour of E. A is younger than C. B was born before F.

87. Who is the second oldest in the group ?
1) A 2) C 3) B 4) G 5) None of these
88. Who is sitting third to the left of F ?
1) The one who born in March. 2) The one who born in April.
3) The one who born in July. 4) The one who born in June.
5) None of these
89. In which month was H born ?
1) March 2) February 3) April 4) July 5) None of these
90. Which of the following statements is true regarding B ?
1) B is sitting fourth to the right of H. 2) The one who was born in February is on the immediate left of B.
3) B is younger than H. 4) There are four persons sitting between E and D.
5) None of these
91. Who sits exactly opposite the one who was born in April ?
1) A 2) H 3) F 4) D 5) None of these

Directions (Q. 92-96) : Study the following information carefully and answer the questions given below:

Twelve people A, B, C, D, E, F, T, U, V, W, X, and Y are sitting in two parallel rows. In row-1 A, B, C, D, E and F are seated and all of them face south while in row-2 T, U, V, W, X and Y seated and all of them face north but not necessarily in the same order. Therefore in the given sitting arrangement each person seated in a row faces another member of the other row.

V, who is at one of the ends of the row, is second to the left of Y. There are two persons between U and T. There is only one person sits between F and A. B sits third to the right of D. B doesn't sit opposite either V or Y. F and A don't sit opposite V. C sits adjacent to F. W, who doesn't sit opposite A, is not adjacent to U.

92. Who sits opposite D ?
1) U 2) Y 3) W 4) X 5) T
93. How many persons sit between E and F ?
1) Four 2) Three 3) Two 4) One 5) None of these

94. यदि बैठने की दी गई व्यवस्था में E, X से संबंधित है उसी तरीके से B, T से संबंधित है तो उसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन D से संबंधित है?
1)U 2)V 3)W 4)Y 5) इनमें से कोई नहीं
95. कौन कतार में अंतिम छोर पर बैठा है?
1)V, T 2)B, D 3)V, W 4)E, A 5) इनमें से कोई नहीं
96. C के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
1) Y, C के विपरीत है। 2) U, C के विपरीत बैठे व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
3) F, C के बगल में नहीं है। 4) C, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है।
5) T उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जो कि C के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है।

निर्देश (प्र. 97-100) : निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे दिये गए प्रश्नों का उत्तर दें।

एक निश्चित कूट भाषा में 'net income from operations' को 'P81 S84 Q85 K82' लिखते हैं, 'net profit from ordinary activities' को 'Q85 S72 T91 P81 R87' लिखते हैं, 'the ordinary income' को 'K82 N75 S72' लिखते हैं तथा 'net profit for the period' को 'L77 N75 M93 R87 P81' लिखते हैं।

97. 'M93' किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
1) for 2) profit 3) period 4) ज्ञात नहीं किया जा सकता 5) इनमें से कोई नहीं
98. 'operation' के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट है?
1) Q85 2) S84 3) K82 4) ज्ञात नहीं किया जा सकता 5) इनमें से कोई नहीं
99. निम्नलिखित में से कौन सा कूट 'profit from activities' को प्रदर्शित करता है?
1) R87 Q85 T91 2) C77 Q85 R87 3) R85 Q87 T91 4) R87 Q87 T91 5) इनमें से कोई नहीं
100. 'income tax' के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट हो सकता है?
1) K82 Q85 2) K82 R87 3) K82 H52 4) K82 L77 5) इनमें से कोई नहीं

94. If E is related to X in the same way as B is related to T, based on the given arrangement. Who among the following is related to D, following the same pattern ?
 1)U 2)V 3)W 4)Y 5) None of these
95. Who sits at extreme ends of the row ?
 1)V, T 2)B, D 3)V, W 4)E, A 5) None of these
96. Which of the following statements is true about C ?
 1) Y sits opposite C. 2) U is not neighbour of the person who sits opposite C
 3) F is not adjacent to C. 4) C sits second from the right end.
 5) T sits opposite that the person who sits third to the left of C.

Directions (Q. 97-100) : Study the following information carefully and answer the questions given below:

In a certain code language 'net income from operations' is written as 'P81 S84 Q85 K82', 'net profit from ordinary activities' is written as 'Q85 S72 T91 P81 R87', 'the ordinary income' is written as 'K82 N75 S72' and 'net profit for the period' is written as 'L77 N75 M93 R87 P81'.

97. What does 'M93' stands ?
 1) for 2) profit 3) period 4) Can't be determined 5) None of these
98. Which of the following is the code for 'operation' ?
 1)Q85 2)S84 3)K82 4) Can't be determined 5) None of these
99. Which of the following represent the code for 'profit from activities' ?
 1)R87 Q85 T91 2)C77 Q85 R87 3)R85 Q87 T91 4)R87 Q87 T91 5) None of these
100. Which of the following may be the code for 'income tax' ?
 1)K82 Q85 2)K82 R87 3)K82 H52 4)K82 L77 5) None of these

IBPSPO-PT-B-015

abhiram

1. 4; Replace 'into' with 'in'
2. 1; Insert 'the' before 'bank'
3. 2; Replace 'tough' with 'tougher'
4. 2; Replace 'launch' with 'launched'
5. 5

(6-10): ACEDB

6. 1	7. 3	8. 5	9. 4	10. 2
11. 5	12. 1	13. 3	14. 2	15. 4
16. 1	17. 3	18. 1	19. 2	20. 1
21. 4	22. 1	23. 3	24. 1	25. 2
26. 3	27. 1	28. 1	29. 2	30. 4

31. 2; $\sqrt{53.29} \div (30)^{-2} = 7.30 \times 900 = 6570$

32. 4; $? = \frac{366.5 - (1335 \times 0.13)}{1135} \times 100 = \frac{192.95 \times 100}{1135} = 17$

33. 5; $? = \frac{115260 \times 11 \times 7}{113 \times 85} = 924$

34. 2; $105 \times ? = (304 \times 14) - 2786 = 4256 - 2786$

$\therefore ? = \frac{1470}{105} = 14$

35. 3; $? = \sqrt[3]{1061208} = \sqrt[3]{(102)^3} = 102$

36. 2; $+4^2, +6^2, +8^2, +10^2, +12^2, \dots$

37. 1; $\times 12 - 11, \times 10 - 9, \times 8 - 7, \times 6 - 5, \dots$

38. 5; $\times 3 - 5, \times 3 - 5, \times 3 - 5, \times 3 - 5, \dots$

39. 1; $(99)^2, (98)^2, (97)^2, (96)^2, (95)^2, (94)^2, \dots$

40. 4; $7^3 - 4 = 339, 9^3 + 4 = 733, (11)^3 - 4 = 1327$
 $(13)^3 + 4 = 2201, (15)^3 - 4 = 3371, (17)^3 + 4 = 4917$

41. 3; Let the initial cost price be x

Then, $1.35x - 1.24x = 528$

$\Rightarrow 0.11x = 528$

$\Rightarrow x = \frac{528}{0.11} = 4800$

\therefore Require S. P. = $4800 \times \frac{140}{100} = 6720$

42. 2; Let the age of Rahul, Ajay and Vijay be x, y and z respectively,

Here, $\frac{x+y}{2} = 51$

$\therefore x + y = 102$ (i)

Similarly $y + z = 72$ (ii)

$x + z = 86$ (iii)

Solving equation I, II and III, we get, $x = 58, y = 44, z = 28$

\therefore After 12 years Ajay's age = $44 + 12 = 56$ years and

Vijay's age = $28 + 12 = 40$ years.

\therefore Ratio = $\frac{56}{40} = \frac{7}{5} = 7:5$

43. 2; Amount after three years = $7 \times \frac{105}{100} \times \frac{108}{100} \times \frac{112}{100}$
 $= 8.89056$ lakh = 889056

\therefore C.I. = $889056 - 700000 = ₹ 189056$

44. 1; There are nine letters. Taking the three vowels (E, E, A) as a unit, total number of letters becomes 7.

D is repeated twice, and E is repeated twice among vowels.

\therefore Total number of arrangements

$= \frac{7!}{2!} \times \frac{3!}{2!} = 2520 \times 3 = 7560$

45. 3; n(s) = No. of ways in which seven persons can sit around a round table = 6!

As three persons can be taken as a unit total persons = 5 and number of ways in which five persons can sit around the table = 4! and three persons can sit in 3! ways among themselves.

$\therefore n(E) = 4! \times 3!$

$\therefore P(E) = \frac{4! \times 3!}{6!} = \frac{1}{5}$

46. 2; Let length = x

breadth = y

$x + y = 81$

$xy = 828$

$(x - y) = \sqrt{(81)^2 - 828 \times 4}$

$= \sqrt{6561 - 3312}$

$= \sqrt{3249}$

$= 57$

$x + y = 81$

$x - y = 57$

$2x = 138$

$\therefore x = 69$ and $y = 12$

\therefore Original length = $\frac{69}{230} \times 100 = 30$ cm

\therefore Perimetre = $2(30 + 12) = 2 \times 42 = 84$ cm

47. 2;

Let their speeds be u km/hr and v km/hr

$\therefore u + v = \frac{600}{8} = 75$ (i)

and $u - v = 15$ km/hr(ii)

IBPSPO-PT-B-015

abhiram

From equation (I) & (II), $u = 45$ km/hr and $v = 30$ km/hr

\therefore Required ratio = 2 : 3

48. 5; Let the work be completed in x days.

$$\text{A's one day's work} = \frac{1}{30}$$

$$\therefore \text{A's 10 days, work} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

$$\text{B's one day's work} = \frac{1}{45}$$

$$[\therefore \text{B's } (x - 5) \text{ days}] \text{ work} = \frac{x - 5}{45}$$

$$\text{C's one day's work} = \frac{1}{60}$$

$$\therefore \text{C's } x \text{ days work} = \frac{x}{60}$$

$$\therefore \frac{1}{3} + \frac{x - 5}{45} + \frac{x}{60} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{60 + 4x - 20 + 3x}{180} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{7x + 40}{180} = 1$$

$$\Rightarrow 7x = 180 - 40$$

$$\Rightarrow 7x = 140$$

$$\therefore x = \frac{140}{7} = 20 \text{ days}$$

$$49. 4; \text{ Daily earnings of } A + B + C = \frac{3905}{11} = 355 \quad \dots(i)$$

$$\text{Daily earnings of } A + C = \frac{3055}{13} = 235 \quad \dots(ii)$$

$$\text{Daily earnings of } B + C = \frac{4760}{17} = 280 \quad \dots(iii)$$

From (i) and (iii), Daily earnings of $A = 355 - 280 = 75$

\therefore Earnings of A in 15 days = $75 \times 15 = 1125$

$$\therefore 60\% \text{ of } 1125 = \frac{1125 \times 60}{100} = ₹ 675$$

50. 3; Let the distance between p and q be x km and speed of train y km/hr.

$$\therefore \frac{x}{y} = 33 \quad \dots(i)$$

$$\frac{x}{y - 10} = 55 \quad \dots(ii)$$

Solving equations (i) & (ii)

$x = 825$ km, $y = 25$ km/hr

51. 4; For A , 3rd class = 20% = 35

$$\therefore \text{Total} = \frac{35}{20} \times 100 = 175$$

\therefore 1st class = 36% of 175 = 63

Similarly we will find for other schols also.

\therefore Total passed = 1610 and total 1st class = 561

\therefore Difference = 1610 - 561 = 1049

52. 3; Total (3rd class) = 459

Total passed = 1610

$$\therefore \text{Percentage} = \frac{459 \times 100}{1610} \approx 28.5\%$$

53. 4; $A = 63$, $B = 120$, $C = 75$, $D = 112$, $E = 126$, $F = 65$

54. 1; Total (1st) = $63 + 120 + 75 + 112 + 126 + 65 = 561$

Total (3rd) = $35 + 36 + 100 + 80 + 78 + 130 = 459$

\therefore Total (1st or 3rd) = $561 + 459 = 1020$

$$\therefore \text{Average} = \frac{1020}{6} = 170$$

$$55. 5; \text{B(1st class)} = \frac{36 \times 100}{15} \times \frac{50}{100} = 120$$

E(3rd class) = 78

$$\therefore \text{Required percentage} = \frac{78}{120} \times 100 = 65\%$$

56. 1;

$$\text{I } 2.3p - 20.01 = 0$$

$$\therefore p = \frac{20.01}{2.3} = 8.7$$

$$\text{II } 2.9q - p = 0$$

$$\Rightarrow p = 2.9q$$

$$\therefore q = \frac{8.7}{2.9} = 3$$

Hence, $p > q$

57. 2;

$$\text{I } p = \sqrt{1764}$$

$$\therefore p = 42$$

$$\text{II } q^2 = 1764$$

$$\therefore q = \pm 42 \quad [p \geq q]$$

58. 5;

$$\text{I } p^2 - 26p + 168 = 0$$

$$\Rightarrow p^2 - 12p - 14p + 168 = 0$$

$$\Rightarrow p(p - 12) - 14(p - 12) = 0$$

$$\Rightarrow (p - 12)(p - 14) = 0$$

$$\therefore p = 12, 14$$

$$\begin{aligned} \text{II. } & q^2 + 25q + 156 = 0 \\ \Rightarrow & q^2 - 13q - 12q + 156 \\ \Rightarrow & q(q - 13) - 12(q - 13) = 0 \\ \Rightarrow & (q - 13)(q - 12) = 0 \\ \therefore & q = 12, 13 \end{aligned}$$

59. 2;

$$\begin{aligned} \text{I. } & p^2 - 13q + 42 = 0 \\ \Rightarrow & p^2 - 6p - 7p + 12 = 0 \\ \Rightarrow & p(p - 6) - 7(p - 6) = 0 \\ \Rightarrow & (p - 6)(p - 7) = 0 \\ \therefore & p = 6, 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{II. } & q^2 + q - 42 = 0 \\ \Rightarrow & q^2 + 7q - 6q - 42 = 0 \\ \Rightarrow & q(q + 7) - 6(q + 7) = 0 \\ \Rightarrow & (q + 7)(q - 6) = 0 \\ \therefore & q = 6, -7 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{60. 3; Equation (I) } \times 3 \quad 18p - 15q = -141 \\ \text{Equation (II) } \times 5 \quad 25q + 15q = 55 \\ \hline 43p \quad \quad \quad = -86 \end{array}$$

$$\therefore p = \frac{-86}{43} = -2$$

$$\begin{aligned} 5p + 3q &= 11 \\ \Rightarrow 3q &= 11 + 10 \end{aligned}$$

$$\therefore q = \frac{21}{3} = 7$$

[p < q]

61. 1; Percentage profit of A = 40%

$$\text{Percentage profit of B} = \frac{48.6 - 36}{36} \times 100 = 35\%$$

$$\therefore \text{Difference} = 40 - 35 = 5\%$$

62. 4; Income of A = 32.5

Percentage profit of A = 25%

$$\therefore \text{Expenditure of A} = \frac{32.5}{100 + 25} = 26 \text{ lakh}$$

$$\therefore \text{Profit of A} = 32.5 - 26 = 6.5 \text{ lakh}$$

$$\text{Profit of B} = 35 - 25 = 10 \text{ lakh}$$

$$\text{Net profit of A and B} = 10 + 6.5 = 16.5 \text{ lakh}$$

$$\text{63. 3; 2013 ; Percentage profit} = \frac{77 - 44}{44} \times 100 = 75\%$$

64. 1; Expenditure of A = 45 lakh

$$\therefore \text{Income of A} = 45 \times \frac{110}{100} = 49.5 \text{ lakh}$$

$$\therefore \text{Profit of A} = 4.5 \text{ lakh and}$$

$$\text{Profit of B} = 80 - 50 = 30 \text{ lakh}$$

$$\therefore \% = \frac{4.5}{30} \times 100 = 15\%$$

65. 4; Income of A = 90 lakh

$$\text{Expenditure of A} = 90 \times \frac{100}{120} = 75 \text{ lakh}$$

$$\therefore \text{Profit of A} = 15 \text{ lakh,}$$

$$\text{Profit of B} = 72 - 45 = 27 \text{ lakh}$$

$$\therefore \text{Required percentage} = \frac{27 - 15}{15} \times 100 = \frac{1200}{15} = 80\%$$


(66-70)

Person	Department	Colour
Sapna	R & D	Yellow
Tanmay	Designing	Blue
Ujit	Production	Black
Vansh	Designing	Brown
Wasim	Designing	Violet
Xavier	R & D	White
Yunis	Production	Orange
Zaheer	R & D	Green

66. 2; 67. 1; 68. 3; 69. 3; 70. 2;

(71-75)

71. 1;




(I) Conclusion I follows.

(II) There is no relation between goat and cat. So, conclusion II doesn't follow.

(III) There is no relation between rat and dog. So, conclusion III also doesn't follow.

72. 5;




(I) Conclusion I doesn't follow.

(II) Conclusion II doesn't follow.

But both are complementary pair.


(III) Conclusion III doesn't follow.

(87-91)



87.2; 88.1; 89.4; 90.2; 91.5;

(92-96)



92.5; 93.3; 94.1; 95.4; 96.1;

(97-100)

net – P81
income – K82
from – Q85
operation – S84
profit – R87
ordinary – S72
activities – T91
for – M93/L77
the – N75
period – L77/M93

97.4; 98.2; 99.1; 100.3;